

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जून 2014—ज्येष्ठ 14, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2014

क्र. एफ. ए. 6-39-2014-1-पांच (18).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट संभाग के लिए अतिरिक्त संभागीय उपायुक्त के रूप में नियुक्त करती है और उनके संभाग में लंबित या उद्भूत होने वाले कर निर्धारण के मामलों के निपटारे की शक्तियां प्रदान करती है. यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होगा, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	उपायुक्त का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना (2)	संभाग (3)
1	श्री के. एन. मीना, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर.	जबलपुर संभाग-01 तथा 02
2	श्री आर. के. शर्मा, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर.	इन्दौर संभाग-01, 02 तथा 03
3	श्री यू. एस. बैस, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर.	इन्दौर संभाग-01, 02 तथा 03

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2014

क्र. एफ. ए. 6-39-2014-1-पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 6-39-2014-1-पांच (18), दिनांक 4 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 4th June 2014

No. F- A-6-39-2014-V (18).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, appoints the Deputy Commissioner of Commercial Tax mentioned in Column (2) of the table below as Additional Divisional Deputy Commissioner for the division as specified in column (3) and confer the powers to dispose of the assessment cases pending or arising in the division this responsibility shall be in addition to their present responsibilities, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Deputy Commissioner and present posting (2)	Division (3)
1	Shri K. N. Meena, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Office Indore.	Jabalpur division-1 and 2
2	Shri R. K. Sharma, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Office Indore.	Indore division-1, 2 and 3
3	Shri U. S. Bais, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Office Indore.	Indore division-1, 2 and 3

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.